



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 1982/माघ 9, 1903

No. 36]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 1982/MAGHA 9, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1982

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDERS

New Delhi, the 29th January, 1982

का० आ० 56(ख)---बीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में लखसर स्थित, बीनी का विनिर्माण कर रही, राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल लिमिटेड, का प्रबंध, भारत सरकार के अंतर्गत कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं० का० आ० 61 (घ) तारीख 31 जनवरी, 1979 द्वारा (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) 2 फरवरी, 1979 को और उससे प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए, केन्द्रीय सरकार से निहित कर दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त बीनी उपक्रम का प्रबंध 1 फरवरी, 1985 तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, तीन वर्ष की और अवधि के लिए, केन्द्रीय सरकार में निहित बना रहेगा,

अतः केन्द्रीय सरकार बीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 3 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त बीनी उपक्रम का प्रबंध 1 फरवरी, 1985 तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है तीन वर्ष की और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित बना रहेगा।

[का० सं० 1-9/81-गन० 11म० 50]

S.O. 56(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), No. S.O. 61(E), dated the 31st January, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the Rai Bahadur Narain Singh Sugar Mills Limited, manufacturing sugar at Lhaksar in the district of Saharanpur in the State of Uttar Pradesh was vested in the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), for a period of three years commencing on and from the second day of February, 1979;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said sugar undertaking shall continue to vest in the Central Government for a further period of three years up to and inclusive of the first day of February, 1985;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), the Central Government hereby directs that the management of the said sugar undertaking shall continue to vest in the Central Government for a further period of three years up to and inclusive of the first day of February, 1985.

[F. No. 1-9/81-NSU]

का० प्रा० 57(अ)--चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली जिले में पेट्टावयतालई स्थित कावेरी कारखाना चीनी का विनिर्माण कर रही कावेरी शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड का प्रबंध, भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं० का० प्रा० 65(अ) तारीख 3 फरवरी, 1979 द्वारा (जिसे हममें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) 7 फरवरी, 1979 को और उससे प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित कर दिया गया था,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबंध 6 फरवरी, 1985 तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है तीन वर्ष की और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित बना रहेगा;

अतः केन्द्रीय सरकार चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 3 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेश देती है कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबंध 6 फरवरी, 1985 तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है तीन वर्ष की और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित बना रहेगा।

[फा० 1-9/81-एन० एस० यू०]

S.O. 57(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), No. S.O. 65(E), dated the 3rd February, 1979 (hereinafter referred to as the said Order) the management of the Cauvery Sugar and Chemical Limited, Cauvery Factory manufacturing sugar at Pettaivaytalai in the district of Tiruchirappalli in the State of Tamil Nadu was vested in the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), for a period of three years commencing on and from the seventh day of February, 1979;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said sugar undertaking shall continue to vest in the Central Government for a further period of three years up to and inclusive of the sixth day of February, 1985;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), the Central Government hereby directs that the management of the said sugar undertaking shall continue to vest in the Central Government for a further period of three years up to and inclusive of the sixth day of February, 1985.

[F. No. 1-9/81-NSU]

का० प्रा० 58(अ)--चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य के सोडा जिले में बभनान स्थित चीनी का विनिर्माण कर रही सक्सरिया शुगर मिल्स लिमिटेड, का प्रबंध, भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं० का० प्रा० 129 (अ) तारीख 9 मार्च, 1979 द्वारा (जिसे हममें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) 13 मार्च, 1979 को और उससे प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित कर दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबंध 12 मार्च, 1985 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, तीन वर्ष की और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित बना रहेगा;

अतः केन्द्रीय सरकार चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 3 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेश देती है कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबंध 12 मार्च, 1985 तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है तीन वर्ष की और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित बना रहेगा।

[फा० सं० 1-9/81-एन० एस० यू०]

सी एन० राघवन,
संयुक्त सचिव

S.O. 58(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), No. S.O. 129(E), dated the 9th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the Saksaria Sugar Mills Ltd., manufacturing sugar at Babhan in the district of Gonda in the State of Uttar Pradesh was vested in the Central Government under clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), for a period of three years commencing on and from the thirteenth day of March, 1979;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said sugar undertaking shall continue to vest in the Central Government for a further period of three years up to and inclusive of the twelfth day of March, 1985;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), the Central Government hereby directs that the management of the said sugar undertaking shall continue to vest in the Central Government for a further period of three years up to and inclusive of the twelfth day of March, 1985.

[F. No. 1-9/81-NSU]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.